

\*प्रेस विज्ञप्ति\*

\*जनपद मुरादाबाद\*



\*दिनांक:-09-01-2023\*

**\*1-चरस के साथ 01 गिरफ्तार, थाना बिलारी:-\***

अवगत कराना है दिनांक 08.01.2023 की रात्रि को उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बिलारी द्वारा हमराही पुलिसबल की मदद से अभियुक्त नदीम उर्फ चालू पुत्र शकील निवासी मोहल्ला अंसारीआन कस्बा व थाना बिलारी मुरादाबाद को 265 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-12/2023 धारा-8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

**\*2-स्मैक के साथ 01 महिला गिरफ्तार थाना सिविल लाईन्स:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2023 की सांय उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना सिविल लाइन्स द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्ता कामिनी पत्नि स्व0 हरनारायण निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाईस मुरादाबाद को 09 ग्राम स्मैक व 5340 रू0/- के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्ता के विरुद्ध थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0-20/2023 धारा-8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

**\*3-गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना सिविल लाईन्स:-\***

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से आपराधिक षडयन्त्र कर लूट व चोरी जैसे गम्भीर अपराध कारित करने के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक सिविल लाईन्स द्वारा दिनांक 01.01.2023 को मु0अ0सं0-01/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 09.01.2023 को उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन्स द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त 1-सचिन पुत्र राजेश निवासी नया गांव 23 पीएसी 2. संजय सागर पुत्र महेश सिंह निवासी नया गांव 23 पीएसी को गिरफ्तार किया गया।

**\*4-गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना मूढापाण्डे:-\***

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर गौवंशीय पशुओ का वध कर गौ मांस की तस्करी करके अवैध रूप से आर्थिक, भौतिक लाभ कमाने के सम्बन्ध में दिनांक 07.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक थाना मूढापाण्डे द्वारा मु0अ0सं0 -009/2023 धारा - 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 09.01.2023 को उ0नि0 ध्यानपाल सिंह थाना मूढापाण्डे द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1-हफीज अहमद पुत्र तौफीक निवागी ग्राम आवलाघाट थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद 2-वाजिद अली पुत्र रियासत नि0 ग्राम आवलाघाट थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

**\*5-दहेज के लिये प्रताड़ित करने, तीन तलाक देने का आरोपी पति गिरफ्तार थाना मैनाठेर:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 30.07.2022 को वादिनी निवासी थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को दहेज के लिये प्रताड़ित करने , पति द्वारा तीन तलाक देने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0- 224/2022 धारा 498A/323/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट व 3/4 मुस्लिम विवाह अधि0 पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 09.01.2023 को उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना मैनाठेर द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त नईम पुत्र एजाज उर्फ रईश अहमद नि0 मौ0 रूकुन्दीन सराय थाना नखासा जिला सम्भल को गिरफ्तार किया गया।